

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-16122022-241140
SG-DL-E-16122022-241140

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532] दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2022/अग्रहायण 22, 1944 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 388
No. 532] DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2022/AGRAHAYANA 22, 1944 [N. C. T. D. No. 388

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्य जीव विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

आई डी सं. 391/TO(S)/22-23/11458-65.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली मिनी शैक्षिक परिसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली परिसर, हौज खास, नई दिल्ली में इंजीनियर ब्लॉक 99बी और 99सी के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 3.0 हेक्टेयर लगभग क्षेत्रफल को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से छूट प्रदान करते हैं।

परियोजना का नाम और स्थान		वृक्षों की संख्या		योग	उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
		प्रत्यारोपण हेतु	काटे जाने वाले		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मिनी शैक्षिक परिसर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली परिसर, हौज खास, नई दिल्ली में इंजीनियर ब्लॉक 99बी और 99सी के निर्माण हेतु।	99बी	19	14	33	330
	99सी	65	59	124	1240
योग		84	73	157	1570

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण / वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	<p>उपभोगी संस्था द्वारा 1570 का प्रतिपूरक वृक्षारोपण (10x157=1570 अर्थात् वृक्षों को प्रत्यारोपण/ काटे जाने वाले वृक्षों का दस गुना) प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, देसी कीकर, अर्जुन एवं अन्य देशी प्रजातियों का भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली परिसर के अंदर निम्नलिखित स्थानों पर किया जाएगा:-</p> <p>1) न्यू गर्ल हॉस्टल 2) न्यू बॉयज हॉस्टल 3&3ए) सतपुड़ा हॉस्टल 4&5) कैलाश हॉस्टल 6) न्यू बॉयज हॉस्टल 6बी) मेन गेस्ट हाउस 7) सोलर हाउस के पीछे 8) स्विमिंग पूल के पास 9) कुमाओ हॉस्टल के पीछे 10&11) मुख्य सुरक्षा कार्यालय 12) सतपुड़ा हॉस्टल 13) विश्वकर्मा बिल्डिंग के पीछे 14) विंध्यांचल के पास 15) ओपन एयर थिएटर के पास 16) नाला पर अस्थायी अस्थायी पार्किंग 17) आर आई पार्क 18) R.I.पार्क 19) A4 ब्लॉक के सामने 20) B12के बीच।</p>	1570	89,49,000/-	वृक्ष अधिकारी/उप-वन संरक्षक (दक्षिण)
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा परियोजना स्थल से 84 वृक्षों का प्रत्यारोपण परियोजना स्थल के भीतर अपने स्वयं की लागत पर किया जाएगा।			

नियम एवं शर्तें

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली हौज खास जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्षों की अवधि के लिए पौधों के सम्पूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु उपरोक्तानुसार 89,49,000/-रुपये (नवासी लाख उनचास हजार मात्र @ रु. 57000/- प्रति वृक्ष) की राशि अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी और यदि उपभोगी संस्था द्वारा 2, 3 और 4 में उल्लिखित नियमों और शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो इस राशि को जब्त कर लिया जाएगा और इस राशि को वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा।
- उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों का प्रत्यारोपण/ कटाई शुरू करने से पहले पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें:-
 - दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुपालन में उपभोगी संस्था द्वारा संबंधित वृक्ष अधिकारी / उप-वन संरक्षक को विस्तृत वृक्षारोपण कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा।
 - उपभोगी संस्था द्वारा साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत किया जाएगा।
 - उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृक्षों की कटाई/ प्रत्यारोपण से पूर्व कोई लंबित मुकदमा या स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय / अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित न हुआ हो।
 - उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को कटाई/ प्रत्यारोपण का कार्य सभी वैधानिक मंजूरीयों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा।
 - उपभोगी संस्था के द्वारा वन मंजूरी में और अन्य मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों, यदि कोई हो, का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा।
- वृक्षों के प्रत्यारोपण/कटाई के दौरान पूरी की जाने वाली आवश्यक शर्तें:-
 - क्र. सं. 2 में शर्तों के अनुपालन होने के तुरंत बाद उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों का प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा और इसे छः महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा। प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट

संबंधित वृक्ष अधिकारी / उप-वन संरक्षक को प्रस्तुत की जायेगी। प्रत्यारोपण स्थल में प्रत्यारोपित वृक्षों की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए।

- b. उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।
 - c. उपभोगी संस्था द्वारा 73 वृक्षों को काटने से पूर्व प्रत्यारोपण किया जाएगा। 73 वृक्षों की अनुमति 84 वृक्षों के सफल प्रत्यारोपण और संबंधित वृक्ष अधिकारी/उप-वन संरक्षक को अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जायेगी।
 - d. उपभोगी संस्था द्वारा प्रत्यारोपण/काटे जाने वाले वृक्षों की प्रगति रिपोर्ट संबंधित वृक्ष अधिकारी/उप-वन संरक्षक को वृक्षों के पूर्ण विवरण के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
 - e. यदि किसी वृक्ष में पक्षियों का घोंसला पाया जाता है तो उसे तब तक नहीं काटा/प्रत्यारोपण किया जाएगा जब तक कि पक्षी उसे स्वतः छोड़ न दें।
 - f. उपभोगी संस्था द्वारा 157 वृक्षों के अलावा किसी भी वृक्ष की कटाई / प्रत्यारोपण दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत एक अपराध होगा।
 - g. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को हटाए जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धन राशि को सरकार के खाते में राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।
 - h. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाएगी और इसकी सूचना संबंधित वृक्ष अधिकारी/उप-वन संरक्षक को भी दी जाएगी।
 - i. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों को हटाए जाने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व संबंधित वृक्ष अधिकारी/उप-वन संरक्षक से हुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।
 - j. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों की प्रत्यारोपण / कटाई और उसमें पैदा होने वाली वन उपज को सार्वजनिक श्मशान में 90 दिनों के अंदर पूरा किया जाएगा।
 - k. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
 - l. उपभोगी संस्था के द्वारा वन मंजूरी में और अन्य मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों, यदि कोई हो, का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा।
 - m. उपभोगी संस्था के द्वारा अनुमोदित वृक्ष संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रस्तुत सभी गतिविधियों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा।
 - n. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 की धारा 4 (6-बी) के अंतर्गत सभी प्रावधानों का निष्ठापूर्वक पालन किया गया है और इसका विवरण संबंधित वृक्ष अधिकारी / उप-वन संरक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा।
 - o. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी प्रतिरोपित वृक्षों के लिए जो 15 फीट ऊंचाई और कम से कम 6 इंच व्यास वाले स्वदेशी वृक्ष प्रजातियों में जीवित नहीं रह पाते हैं, तो उन्हें 1:5 के अनुपात में लगाया जाएगा। आवश्यक अतिरिक्त भूमि उपभोगी संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी और वृक्षारोपण स्वयं की लागत पर किया जाएगा।
- 4. वृक्ष अधिकारी / उप-वन संरक्षक द्वारा सफल वृक्षारोपण और सुरक्षा जमा राशि जारी करने पर विचार करने के लिए आवश्यक शर्तें:-**
- a. उपरोक्त तालिका 1 (क) और (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 1570 पौधों का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षों तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा। इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी।
 - b. 157 वृक्षों के प्रत्यारोपण/काटे किए जाने के बदले में 1:10 के अनुपात में स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊंचाई वाले 1570 पौधों का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा। वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट

- वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और अग्रिम सात (7) वर्षों के लिए रखरखाव तथा उसके बाद उनका रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा अपनी स्वयं की लागत पर किया जाएगा।
- यदि उपभोगी संस्था सफलतापूर्वक प्रतिपूरक वृक्षारोपण करने में विफल रहती है। उपभोगी संस्था द्वारा अतिरिक्त साइट सुधार खर्चों को जमा किया जाएगा जो कि सम्बंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक द्वारा गणना के अनुसार वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक हो सकती है।
 - जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ वृक्ष प्रत्यारोपण के लिए आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यों के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।
 - उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षारोपण पत्रिका को वन और वन्यजीव विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्धारित करेगी और इसकी एक प्रति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संबंधित वृक्ष अधिकारी / उप- वन संरक्षक को प्रस्तुत की जाएगी।
 - भूमि स्वामित्व एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण न हो।
 - उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को किया जाएगा।
 - उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
5. 157 वृक्षों को प्रत्यारोपण/ कटाई के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षों और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश
से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 13th December, 2022

I.D. No. 391/TO(S)/22-23/11458-65.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 3.0 ha approx. for construction of Engineer Block 99B & 99C at Mini Academic Complex, IIT Delhi Campus, Hauz Khas, New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Name of the Project		Number of trees (recommended for)			Compensatory Plantation by User Agency (Number of trees)
		Transplantation	Felling	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Construction of Engineer Block 99B & 99C at Mini Academic Complex, IIT Delhi Campus, HauzKhas, New Delhi.	Block 99B	19	14	33	330
	Block 99 C	65	59	124	1240
Total		84	73	157	1570

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

SN	Location of Compensatory Plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	<p>100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for transplantation/ felling of 157 nos. of trees i.e.1570 number of tree saplings proposed to be of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, Desi Kikar and Arjun along with other native species shall be carried out by User Agency at following locations inside the IIT campus.</p> <p>1) New Girl Hostel 2) New Boys Hostel 3&3A) Behind Satpura Hostel 4&5) Kailash Hostel 6) New Boys Hostel 6B) Main Guest House 7) Behind Solar House 8) Near Swimming Pool 9) Opp. Kumao Hostel 10&11) Main Security Office 12) Satpura Hostel 13) Opp. Vishwakarma Building (TIFAC) 14) Near Vindhyanchal 15) Near Open Air Theatre 16) Temporary Visitors Parking on Nalah 17) R.I Park 18) R.I Park 19) Opposite A4 Block 20) Between B12</p>	1570	89,49,000/-	Tree Officer /Deputy Conservator of Forests (South)
(b)	Transplantation of 84 numbers of trees which are standing on site shall be done by User within the project sitewith their own funds.			

TERMS & CONDITIONS

- Indian Institute of Technology (IIT) Delhi Hauz Khas** herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs.89,49,000/- (Rupees Eighty Nine Lakh Forty Nine Thousand Only@ Rs. 57000/- per tree) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven (7) years and the same shall be forfeited and utilized for plantation by the Forest Department if terms and conditions mentioned at 2, 3 & 4 are not followed by User Agency.
- The conditions required to be fulfilled before starting transplantation/ felling of trees by User Agency:-**
 - Detailed plantation schedule shall have to be submitted by User Agency to concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forestsin compliance with Section-12 of Delhi Preservation of Trees Act, 1994.
 - User Agency shall submit a detailed plan for site preparation and plantation.
 - The User Agency shall ensure that there is no pending litigation or stay order passed by any court of law/ other authority before undertaking felling/ transplantation of trees.
 - Before the removal of trees from the site is commenced, all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.
 - It should be ensured by the User Agency that all the conditions mentioned in Forest clearance and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.
- The conditions required to be fulfilled during the transplantation/felling of trees:-**
 - Transplantation of trees shall be initiated immediately after conditions in point no. 2 is satisfied and should be completed not later than six (06) months of such date, after which a completion report has to

be submitted to the concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.

- b. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.
- c. The transplantation shall be carried out prior to felling of 73 number of trees permitted herein. The 73 trees shall be removed / felled after successful transplantation of 84 trees and submission of compliance certificate to concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests.
- d. The progress report of transplantation/ felling shall be submitted to Tree Officer / Deputy Conservator of Forests (South) along with complete details of trees by the User Agency.
- e. If any tree is found to have nest of birds it should not be felled / transplanted till the same is abandoned by the birds.
- f. Transplantation / felling of any tree apart from 157 trees by User Agency shall constitute an offence under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994.
- g. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.
- h. The lops & tops of the trees shall be sent / supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests by User Agency.
- i. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests by User Agency.
- j. Transplantation/ felling of trees and transportation of forest produce arising there from to the public crematorium shall be completed within 90 days.
- k. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
- l. It should be ensured by the User Agency that all the conditions mentioned in forest clearance and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.
- m. All activities as submitted under approved Tree Preservation Plan should be followed scrupulously.
- n. It must be ensured that all provisions under section 4 (6-b) of Tree Transplantation Policy 2020 have been followed and details of the same should be submitted to the Tree Officer / Deputy Conservator of Forests concerned.
- o. User Agency must ensure that, for all transplanted trees that do not survive indigenous tree species with 15 feet height and at least 6 inch diameter is planted in 1:5 ratio. The excess land required should be provided by User Agency & plantation has to be done at own cost.

4. The conditions required to be fulfilled for considering successful plantation & release of Security Deposit by the Tree Officer / Deputy Conservator of Forests:-

- a. 100% Compensatory Plantation of 1570 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as mentioned on table above.
- b. 1570 tree saplings of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of felling/ transplantation 157 number of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance for next Seven (7) years shall be carried out there after by User Agency with their own funds.
- c. If the User Agency fails to successfully raise compensatory plantation. The User Agency shall also deposit extra site improvement expenses which may be required to make the site suitable for plantation as calculated by Tree Officer / Deputy Conservator of Forests concerned (as deposits).
- d. The land over which compensatory plantation/ Tree transplantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of the State Government.

-
- e. User Agency shall maintain plantation journals as prescribed by Department of Forests and Wildlife, Govt. of NCT of Delhi and a copy of the same shall be submitted to the concerned Tree Officer / Deputy Conservator of Forests at the end of every financial year.
 - f. Land Owning agency shall ensure that there is no encroachment in area proposed for compensatory plantation/ transplantation.
 - g. The User Agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on compensatory plantation/ transplantation site.
 - h. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.
5. Permission for transplantation/ felling of 157 numbers of trees is being granted to the User Agency at their own risk and without prejudice the claim(s) of any other person(s) who may be having any right(s) over the land or the trees.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Principal Secy. (Environment & Forests)